

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
संख्या— /xxxi(15)G/21-41(सा0)/2018
देहरादून: दिनांक 01 सितम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप/सूचना संशोधन

कार्यालय-ज्ञाप-447,448 एवं 449/xxxi(15)G/2021-41(सा0)/2018, दिनांक 08 जुलाई, 2021 के द्वारा प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में तैनात नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों से "मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार, 2020-21" हेतु दिनांक 14 अगस्त, 2021 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

2- अतः जनहित में उपरोक्त पुरस्कार की श्रेणी-I क्रियान्वयन स्तर व्यक्तिगत, श्रेणी-II सामूहिक श्रेणी एवं श्रेणी-III उत्तराखण्ड सचिवालय, उत्तराखण्ड विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड राज्यपाल सचिवालय के अन्तर्गत आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14 अगस्त, 2021 से बढ़ाकर दिनांक 15 सितम्बर, 2021 की जाती है।

शेष शर्तें पूर्व के अनुसार यथावत रहेंगी।

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

संख्या-588/xxxi(15)G/21-41(सा0)/2018 तददिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त पुरस्कार के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में संलग्न प्रेस नोट को प्रदेश के 5 (पाँच) सबसे अधिक प्रसार वाले समाचार पत्रों में राजकीय व्यय पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, सचिवालय को एन0आई0सी0 की वेबसाईट www.uk.gov.in पर अपलोड हेतु प्रेषित है।
9. गार्ड फाईल।

संलग्नक: यथोपरि।

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)